

सराहनीय कार्य जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक 23-07-2021

प्रेस नोट दिनांक 23-07-2021

जनपद सिद्धार्थनगर में आधुनिक बीट सिस्टम प्रणाली का किया गया उद्घाटन ।

श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर के आदेश के क्रम में जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस की सहायता आमजन तक सहजता से पहुंचाने तथा जनता की समस्याओं को त्वरित निस्तारण कराने के क्रम में आज दिनांक 23-07-2021 को जनपद के समस्त थानों पर बीट पुलिस अधिकारी (BPO) सिस्टम का उद्घाटन/ शुभारम्भ किया गया, सर्किल स्तर के थानों पर इस शुभारम्भ सम्बन्धित क्षेत्राधिकारीगण द्वारा व थानों पर प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा किया गया ।

इस अभियान के तहत पुलिस की सबसे छोटी एवं महत्वपूर्ण इकाई बीट आरक्षी को प्रमुखता देते हुए अभियान का चलाया जा रहा है । बीट पुलिस अधिकारी को उनके बीट का चार्ज दिया जा रहा है। बीट आरक्षी द्वारा बीट क्षेत्र में रहकर आमजन से सम्पर्क स्थापित किया जायेगा तथा बीट क्षेत्र के शिकायती प्रार्थना पत्रों की जाँच बीट आरक्षी द्वारा की जायेगी। इस अभियान के क्रम में बीट पुलिस अधिकारी द्वारा अपने बीट क्षेत्र में जगह-जगह पर फोन नम्बर व फोटो युक्त पोस्टर लगाये गये हैं, जिससे आम जनता बीट पुलिस अधिकारी से आसानी से सम्पर्क स्थापित करते हुए अपनी समस्याओं का समाधान करा सके ।

सराहनीय कार्य जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक 23-07-2021

शांति व्यवस्था भंग करने वाले 01 नफ़र अभियुक्त को धारा 15/107/116 सीआरपीसी के तहत मोहाना पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा न्यायालय

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश पर एवं श्री सुरेश चन्द रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर व श्री राणा महेन्द्र प्रताप सिंह क्षेत्राधिकारी सदर सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री जयप्रकाश दूबे थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में आज दिनांक 23.07.2021 को अपराध एवं अपराधियों के बिरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के शांति व्यवस्था भंग कर रहे 01 नफ़र अभियुक्त को धारा 151,107,116 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

अभियुक्तों का विवरण -

1. सुनील जायसवाल पुत्र डिप्टी जायसवाल ग्राम बर्डपुर बाजार थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0 नि0 धर्मेन्द्र कुमार यादव थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।
2. का0 लालबहादुर थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।

सराहनीय कार्य जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक 23-07-2021

थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर से एक नफर अभियुक्त को धारा 10 यू0पी0 गुंडा नियंत्रण अधिनियम में गिरफ्तार किया गया ।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश चंद रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में व श्री प्रदीप कुमार यादव क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक ढेबरुआ श्री दिनेश चंद चौधरी के नेतृत्व में आज दिनांक 23.07.2021 को धारा 10 यू0पी0 गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत अन्तर्गत एक अभियुक्त को मु0अ0सं0 153/21 धारा 10 यू0पी0 अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. महाबली चौहान पुत्र छेदी चौहान सा0 मलगहिया थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

01. उ0नि0 श्री विक्रम अजीत राय थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर ।

02. हे0 का0 बाबूराम यादव थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर ।

03. का0 सत्यवीर यादव थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर ।

सराहनीय कार्य जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक 23-07-2021

“शांति व्यवस्था भंग करने वाले 01 व्यक्ति के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही”

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर श्री राम अभिलाष त्रिपाठी के आदेश क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर श्री सुरेश चन्द्र रावत के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ श्री प्रदीप कुमार यादव के कुशल निर्देशन व प्रभारी थानाध्यक्ष चिल्हिया श्री वीरेंद्र कुमार पासवान के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23/07/2021 को संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने व शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए 01 व्यक्ति के विरुद्ध धारा 151/107/116 सीआरपीसी की कार्यवाही कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

विवाद का कारण पारिवारिक बात को लेकर विवाद

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

1. सुनील पाठक पुत्र राम लगन पाठक निवासी शाहा पकड़ी थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ0नि0 श्रीराम यादव

2. हेड कांस्टेबल मिथिलेश यादव

सराहनीय कार्य जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक 23-07-2021

“शांति व्यवस्था भंग करने वाले 01 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही”

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉक्टर यशवीर सिंह के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर श्री सुरेश चंद्र रावत के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी इटवा श्री रमेश चंद पाण्डेय एवं प्र0नि0 श्री ज्ञानेंद्र कुमार राय थाना इटवा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23/07/2021 को संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने व शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए 01 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 151/107/116 सीआरपीसी की निरोधात्मक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

विवाद का कारण -

आने जाने वाले राहगीरों को कमेंट करना व आमदा फौजदारी होना

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण -

01. गुलाम गौस खान उर्फ पप्पू निवासी कस्बा थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

01- उपनिरीक्षक श्री संजय कुमार राय

02- आरक्षी प्रमोद यादव

प्रेस नोट दिनांक 23/07/2021 पुलिस चौकी कोटिया थाना शोहरतगढ सिद्धार्थनगर।

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर नगर के आदेश के अनुपालन में तथा श्री सुरेश चंद्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ श्री प्रदीप कुमार यादव के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक शोहरतगढ श्री राजेंद्र बहादुर सिंह के नेतृत्व में चौकी प्रभारी कोटिया सूर्य प्रकाश सिंह मय हमराह हे० का० राम मिलन पासवान का०संदीप यादव का० अशोक यादव व SSB चौकी कोटिया ASI सोहन सिंह व मय SSB टीम के साथ माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार के आगमन पर सुरक्षा की दृष्टि से अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए व रोकथाम तस्करी के लिए सघन चेकिंग व तलाशी अभियान चलाया गया।

